

## पाठ 5 बहादुर बिल्लों

I . कठिन शब्द :-

1. किसान 2. खेत 3. बैल 4. दूध 5. तरकीब 6. फ़ौरन  
7. घोड़ा 8. मरियल 9. पग्गड़ 10. दराँती 11. भेड़िए 12. राक्षसी

II. शब्दों के अर्थ:-

1. तरकीब - उपाय 2. मरियल - कमज़ोर 3. फटकारा - डाँटा  
4. पाला पड़ना - सामना होना 5. फ़ौरन - तुरंत

III. लिंग बदलो:-

1. शेर - शेरनी 2. पति - पत्नी 3. बैल - गाय 4. घोड़ा - घोड़ी  
5. राक्षस - राक्षसी 6. राजा - रानी 7. मोर - मोरनी

IV. वचन बदलो:-

1. घोड़ा - घोड़े 2. रानी - रानियाँ 3. गधा - गधे 4. बच्चा - बच्चे  
5. बिल्ली - बिल्लियाँ 6. झोपड़ी - झोपड़ियाँ

V. प्रश्नों के उत्तर:-

प्र1. किसान की पत्नी का नाम क्या था?

उत्तर:- किसान की पत्नी का नाम बिल्लों था।

प्र2. शेर किसान से क्या लेने गया था?

उत्तर:- शेर किसान से उसका बैल लेने गया था।

प्र3. शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया?

उत्तर:- क्योंकि शेर ने बित्तों को यह कहते हुए सुन लिया की वह चार शेरों का नाश्ता करती है।

प्र4. शेर किसान के पास कितनी बार गया था?

उत्तर:- शेर किसान के पास दो बार गया था।

प्र5. शेर तो डर कर भागा। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा?

उत्तर:- दोनों की पूंछ बंधी थी। अतः शेर भागा तो जाहिर है भेड़िया भी उससे घिसटता हुआ चला गया होगा।

प्र6. कहानी में से ज़ पर लगे नुक्ते वाले शब्द लिखो:-

उत्तर:- मोटा-ताज़ा, रोज़, तेज़ी से, चीज़, ज़ोर से

प्र7. अगर तुम शेर की जगह होते तो क्या करते?

उत्तर:- बित्तों की बात में न आते और बैल को खा जाती।

VI. औजारों का चित्र बनाइए :-



हथोड़ी



पेचकस



खुरपी




करनी



आरी

VII. पतंग का चित्र बनाओ:-



VIII. नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द लिखो:-

नाम वाले शब्द - अम्मा , आसमान, झाड़ू, चाँद

काम वाले शब्द - पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, वार करना, गुस्सा होना

तंग करना, बैठना